



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 28

19 आषाढ़ 1941 (श०)

पटना, बुधवार, —

10 जुलाई 2019 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

भाग-1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-11	भाग-5-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-1-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---	भाग-7-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-1-ख-मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-1 और 2, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डीप०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---	भाग-8-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---	भाग-9-विज्ञापन	---
भाग-2-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---	भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---	भाग-9-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	12-12
भाग-4-बिहार अधिनियम	---	पूरक	---
		पूरक-क	13-14

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

4 जुलाई 2019

सं० ई2-1-43/2006-5685—बिहार सेवा संहिता के नियम-220A के तहत श्रीमती प्रियंका सिन्हा, उप निर्वाचन पदाधिकारी, जहानाबाद को शिशु देख-भाल हेतु दिनांक 08.07.2019 से 07.09.2019 तक कुल दो महीने का शिशु देख-भाल अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आदेश से,
रत्नेश झा, संयुक्त सचिव।

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

28 मई 2019

सं० 7/शक्ति प्र०-13-01/2018 सा०प्र०-7216—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भों में अंकित विवरण के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं और निदेश देते हैं कि उक्त कार्मिक विभिन्न जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) के अंतर्गत दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

अनुसूची

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	द०प्र०सं० 1973 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है	तिथि/अवधि	प्रयोजन	दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/कार्यपालक)	जिला का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक-138 दिनांक 15.05.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द०प्र०सं० 1973 की धारा-21	चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक	लोक सभा आम निर्वाचन, 2019	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	गया
2	जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- जिला पदाधिकारी, रोहतास के पत्रांक-304 दिनांक 17.05.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द०प्र०सं० 1973 की धारा-21	19.05.2019	लोक सभा आम निर्वाचन, 2019	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	रोहतास

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचनाएं

1 जुलाई 2019

सं० भा०व०से०(स्था०)—11/2016-2169/प०व०—श्री शिव शंकर चौधरी, भा०व०से०, (BH:1984), प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन प्रधान मुख्य वन संरक्षक के Apex Scale (वेतन स्तर-17) में प्रोन्नति दी जाती है। इन्हें प्रोन्नति का लाभ समकक्ष पद पर पदस्थापन के उपरांत योगदान की तिथि से देय होगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।

1 जुलाई 2019

सं० भा०व०से०(स्था०)—11/2016-2173/प०व०—श्री सी.पी. खण्डूजा, भा०व०से०, (BH:1989), मुख्य वन संरक्षक—सह—निदेशक, सामाजिक वानिकी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना, को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HAG) कोटि (वेतन स्तर-15) में प्रोन्नति दी जाती है। इन्हें प्रोन्नति का लाभ समकक्ष पद पर पदस्थापन के उपरांत योगदान की तिथि से देय होगा।

सं० भा०व०से०(स्था०)—11/2016-2174/प०व०—श्री राकेश कुमार, भा०व०से०, (BH:1991), मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास, बिहार, पटना, को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HAG) कोटि (वेतन स्तर-15) में प्रोन्नति दी जाती है। इन्हें प्रोन्नति का लाभ समकक्ष पद पर पदस्थापन के उपरांत योगदान की तिथि से देय होगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।

1 जुलाई 2019

सं० भा०व०से०(स्था०)—11/2016-2170/प०व०—श्री ए. एन. शरण, भा०व०से०, (BH:1985), जो सम्प्रति केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर संयुक्त सचिव, नवीन एवं नवीकरण उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार में पदस्थापित हैं, को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HAG⁺) कोटि (वेतन स्तर-16) में प्रोफार्मा प्रोन्नति दी जाती है। इन्हें प्रोन्नति का लाभ उसी तिथि से देय होगा जिस तिथि से इनसे कनीय पदाधिकारी को समकक्ष पद पर प्रोन्नति का लाभ दिया जायेगा।

सं० भा०व०से०(स्था०)—11/2016-2171/प०व०—श्री भारत ज्योति, भा०व०से०, (BH:1986), जो सम्प्रति केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, पूर्व मध्य क्षेत्र, राँची में पदस्थापित हैं, को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HAG⁺) कोटि (वेतन स्तर-16) में प्रोफार्मा प्रोन्नति दी जाती है। इन्हें प्रोन्नति का लाभ उसी तिथि से देय होगा जिस तिथि से इनसे कनीय पदाधिकारी को समकक्ष पद पर प्रोन्नति का लाभ दिया जायेगा।

सं० भा०व०से०(स्था०)—11/2016-2172/प०व०—श्री ए.के. पाण्डेय, भा०व०से०, (BH:1986), अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना, को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HAG⁺) कोटि (वेतन स्तर-16) में प्रोन्नति दी जाती है। इन्हें प्रोन्नति का लाभ समकक्ष पद पर पदस्थापन के उपरांत योगदान की तिथि से देय होगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।

1 जुलाई 2019

सं० भा०व०से०(स्था०)—11/2016-2175/प०व०—श्री अभय कुमार द्विवेदी, भा०व०से०, (BH:2000), वन संरक्षक, गया अंचल, गया, को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन मुख्य वन संरक्षक कोटि (वेतन स्तर-14) में प्रोन्नति दी जाती है। इन्हें प्रोन्नति का लाभ समकक्ष पद पर पदस्थापन के उपरांत योगदान की तिथि से देय होगा।

सं० भा०व०से०(स्था०)-11/2016-2176/प०व०—श्री कुन्दन कुमार, भा०व०से०, (BH:2000), वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना, को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन मुख्य वन संरक्षक कोटि (वेतन स्तर-14) में प्रोन्नति दी जाती है। इन्हें प्रोन्नति का लाभ समकक्ष पद पर पदस्थापन के उपरांत योगदान की तिथि से देय होगा।

सं० भा०व०से०(स्था०)-11/2016-2177/प०व०—श्री मनोज कुमार सिंह, भा०व०से०, (BH:2000), वन संरक्षक, पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ, को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन मुख्य वन संरक्षक कोटि (वेतन स्तर-14) में प्रोन्नति दी जाती है। इन्हें प्रोन्नति का लाभ समकक्ष पद पर पदस्थापन के उपरांत योगदान की तिथि से देय होगा।

सं० भा०व०से०(स्था०)-11/2016-2178/प०व०—श्री पी. के. जायसवाल, भा०व०से०, (BH:2000), वन संरक्षक-सह-अपर निदेशक, हरियाली मिशन, दक्षिण बिहार, पटना, को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन मुख्य वन संरक्षक कोटि (वेतन स्तर-14) में प्रोन्नति दी जाती है। इन्हें प्रोन्नति का लाभ समकक्ष पद पर पदस्थापन के उपरांत योगदान की तिथि से देय होगा।

सं० भा०व०से०(स्था०)-11/2016-2179/प०व०—श्री के.के. अकेला, भा०व०से०, (BH:2000), वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर, को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन मुख्य वन संरक्षक कोटि (वेतन स्तर-14) में प्रोन्नति दी जाती है। इन्हें प्रोन्नति का लाभ समकक्ष पद पर पदस्थापन के उपरांत योगदान की तिथि से देय होगा।

सं० भा०व०से०(स्था०)-11/2016-2180/प०व०—श्री अभय कुमार, भा०व०से०, (BH:2001), वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर अंचल, मुजफ्फरपुर, को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन मुख्य वन संरक्षक कोटि (वेतन स्तर-14) में प्रोन्नति दी जाती है। इन्हें प्रोन्नति का लाभ समकक्ष पद पर पदस्थापन के उपरांत योगदान की तिथि से देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।

1 जुलाई 2019

सं० भा०व०से०(स्था०)-11/2016-2181/प०व०—श्री नन्द किशोर, भा०व०से०, (BH:2006), निदेशक, उद्यान, कृषि विभाग, बिहार, पटना को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन प्रवर कोटि (वेतन स्तर-13) में दिनांक-01.01.2019 के प्रभाव से प्रोन्नति दी जाती है।

सं० भा०व०से०(स्था०)-11/2016-2182/प०व०—श्री एस. कुमारासामी, भा०व०से०, (BH:2006), वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन प्रवर कोटि (वेतन स्तर-13) में दिनांक 01.01.2019 के प्रभाव से प्रोन्नति दी जाती है।

सं० भा०व०से०(स्था०)-11/2016-2183/प०व०—डॉ. के. गणेश कुमार, भा०व०से०, (BH:2006) जो, सम्प्रति केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर उप वन संरक्षक (केन्द्रीय), क्षेत्रीय कार्यालय (द.पू. परिक्षेत्र), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, चैन्नई में पदस्थापित हैं, को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन प्रवर कोटि (वेतन स्तर-13) में दिनांक 01.01.2019 के प्रभाव से प्रोफार्मा प्रोन्नति दी जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।

गृह विभाग (आरक्षी शाखा)

अधिसूचनाएं

14 जून 2019

सं० 1/एल1-10-09/2008-गृ०आ०-4776—श्री एम० सुनील कुमार नायक, भा०पु०से० (2005), पुलिस उप-महानिरीक्षक, ए०टी०एस०, बिहार, पटना को MCTP-Phase-IV के Foreign Component दिनांक 24.06.2019 से 28.06.2019 की अवधि के बाद दिनांक 29/30.06.2019 (शनिवार एवं रविवार) 02 दिनों का अनुमति अवकाश एवं दिनांक

01 एवं 02.07.2019, 02 दिनों का आकस्मिक अवकाश, कुल 04 (चार) दिन, Ex-India Leave, के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव।

14 जून 2019

सं० 1/एल1-10-07/2014-गृ०आ०-4775—श्री मनु महाराज, भा०पु०से० (2005), पुलिस उप-महानिरीक्षक, मुंगेर क्षेत्र, मुंगेर को MCTP-Phase-IV के Foreign Component दिनांक 24.06.2019 से 28.06.2019 की अवधि के बाद दिनांक 29/30.06.2019 (शनिवार एवं रविवार) के Prefix के साथ दिनांक 01.07.2019 से 04.07.2019 तक कुल 04 (चार) दिनों का Ex-India Leave, आकस्मिक अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव।

6 जून 2019

सं० 1/एल1-10-14/2013-गृ०आ०-4467—विभागीय अधिसूचना सं०-3802 दिनांक 08.05.2019 द्वारा श्री उपेन्द्र कुमार शर्मा, भा०पु०से० (2008), पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 09.06.2019 से 23.06.2019 तक कुल 15 (पन्द्रह) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करते हुए श्री शर्मा के उक्त अवकाश अवधि में उनके द्वारा धारित पद का अतिरिक्त श्री विकास वर्मन, भा०पु०से० (2008), समोदष्टा, बि०सै०पु०-5, पटना को दिया गया था।

2. श्री शर्मा के उक्त अवकाश अवधि में उनके द्वारा धारित पद के अतिरिक्त प्रभार में अब श्री अशोक कुमार सिंह, भा०पु०से० (नवप्रोन्नत), पुलिस अधीक्षक, रेल मुजफ्फरपुर रहेंगे। पूर्व निर्गत विभागीय अधिसूचना सं०-3802 दिनांक 08.05.2019 को तदनुसार संशोधित समझा जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव।

18 जून 2019

सं० 1/एल1-10-02/2015-गृ०आ०-4791—श्री आनन्द कुमार, भा०पु०से० (2012), समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस-7, कटिहार को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 02.07.2019 से 21.07.2019 तक कुल 20 (बीस) दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए उक्त अवधि में निजी खर्च पर विदेश (यूरोप) यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. श्री आनन्द कुमार के उक्त अवकाश अवधि में उनके द्वारा धारित पद के अतिरिक्त प्रभार में श्री रविरंजन, भा०पु०से० (2012), समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस-12, सहरसा रहेंगे।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव।

18 जून 2019

सं० 1/एल1-10-09/2019-गृ०आ०-4788—श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, भा०पु०से०, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, बगहा (सम्प्रति पुलिस अधीक्षक, बाँका के रूप में अधिसूचित) को अपनी पत्नी की चिकित्सा, नई दिल्ली में कराने हेतु अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 10.06.2019 से 29.06.2019 तक कुल 20 (बीस) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री अरविन्द कुमार गुप्ता के उक्त अवकाश अवधि तक अथवा पुलिस अधीक्षक, बगहा के पद पर अधिसूचित पदाधिकारी के योगदान देने तक, जो पहले हो, पुलिस अधीक्षक, बगहा के अतिरिक्त प्रभार में श्री जयन्त कान्त भा०पु०से०, पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया रहेंगे।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव।

22 जून 2019

सं० 1/एल1-10-03/2016-गृ०आ०-4913—श्री गौरव मंगला, भा०पु०से० (2013), पुलिस अधीक्षक, मुंगेर को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 24.06.2019 से 23.07.2019 तक कुल 30 (तीस) दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक-27.06.2019 से 22.07.2019 तक की अवधि में निजी खर्च पर विदेश (यूरोप) यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. श्री मंगला के उक्त अवकाश अवधि में उनके द्वारा धारित पद के अतिरिक्त प्रभार में श्री राकेश कुमार, भा0पु0से0 (2013), समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस-8, बेगूसराय, रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ईश्वर चन्द्र सिन्हा, अपर सचिव।

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं 28 जून 2019

सं0 6/गो0-34-01/2019-1855—वाणिज्य-कर विभाग के राज्य-कर उपायुक्त कोटि के निम्नलिखित पदाधिकारियों को स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-6 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है :-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	बैच संख्या	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	पदस्थापन का पद एवं स्थान का नाम
1	2	3	4	5	6
1	श्री सुरेन्द्र प्रसाद	38वीं/195	नवादा	राज्य कर उपायुक्त वाणिज्य-कर विभाग, मुख्यालय पटना सम्प्रति विशेष अंचल पटना में प्रतिनियुक्त	राज्य कर उपायुक्त मोतिहारी अंचल
2	श्री अजीत कुमार	42वीं/250	पटना	राज्य कर उपायुक्त, मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल	राज्य कर उपायुक्त प्रभारी रक्सौल अंचल
3	श्री अभिक अवतंश	42वीं/251	पटना	राज्य कर उपायुक्त प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, मुख्यालय, बिहार, पटना	राज्य कर उपायुक्त प्रभारी जहानाबाद अंचल
4	श्री रामप्रवेश सहनी	द्वितीय सीमित/ 277	पटना	राज्य कर उपायुक्त सासराम अंचल सम्प्रति प्रतिनियुक्त पटना दक्षिणी अंचल	राज्य कर उपायुक्त पटना दक्षिणी अंचल पटना
5	श्री अशर्फी लाल विद्यार्थी	द्वितीय सीमित/ 278	समस्तीपुर	राज्य कर उपायुक्त कर्मनाशा जॉच चौकी	बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाइटी पटना में उप निदेशक (वित्त) के पद पर प्रतिनियुक्त हेतु सेवा संपूर्ण
6	श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह	47वीं/282	रोहतास	राज्य कर उपायुक्त प्रभारी, जहानाबाद अंचल	राज्य कर उपायुक्त पटना विशेष अंचल
7	श्री एस0 एम0 इरशाद आरिफ	48वीं से 52वीं/ 292	पटना	राज्य कर उपायुक्त प्रभारी, रक्सौल अंचल	राज्य कर उपायुक्त वाणिज्य कर विभाग मुख्यालय, पटना
8	श्री विरेन्द्र कुमार सिंह	48वीं से 52वीं/ 295	भोजपुर	राज्य कर उपायुक्त मोतिहारी अंचल	राज्य कर उपायुक्त अंकेक्षण पटना पूर्वी प्रमंडल, पटना
9	श्री सुरेन्द्र कुमार	48वीं से 52वीं/ 308	बक्सर	राज्य कर उपायुक्त दरभंगा अंचल	राज्य कर उपायुक्त मुजफ्फरपुर, पश्चिमी अंचल
10	श्री रणजीत कुमार रजक	48वीं से 52वीं/ 309	भोजपुर	राज्य कर उपायुक्त, पूर्वियों अंचल	राज्य कर उपायुक्त प्रशिक्षण प्रकोष्ठ वाणिज्य कर विभाग मुख्यालय, पटना

2. क्रम संख्या-10 पर अंकित पदाधिकारी को उनके अभ्यावेदन के आधार पर स्थानान्तरित किया गया है। अतएव स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

3. उपर्युक्त स्थानान्तरित पदाधिकारी सात दिन के अंदर स्थानान्तरित कार्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
जनक राम, उप सचिव।

28 जून 2019

सं० 6/गो०-34-01/2019-1857—वाणिज्य—कर विभाग के राज्य—कर संयुक्त आयुक्त कोटि के निम्नलिखित पदाधिकारियों को स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-6 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है :—

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	बैच संख्या	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	पदस्थापन का पद एवं स्थान का नाम
1	2	3	4	5	6
1	श्री विश्वकान्त तिवारी	36वीं/70	रोहतास	वित्त एवं लेखा नियंत्रक पटना के पद पर नगर निगम को सेवा संपूर्ण सम्प्रति मुख्यालय में पदस्थापित	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण), पूर्णियां प्रमंडल, पूर्णियां
2	श्री उमानन्द चौधरी	36वीं/109	दरभंगा	राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रभारी सीतामढ़ी अंचल	राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रभारी कटिहार अंचल
3	श्रीमति विमला कुमारी	36वीं/129	पटना	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण), दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण), पटना पूर्वी प्रमंडल, पटना
4	श्री किशोर कुमार सिन्हा	37वीं/155	पटना	राज्य कर संयुक्त आयुक्त सम्प्रति निदेशक (वित्त), राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण), पटना पूर्वी प्रमंडल, पटना
5	श्री संजय कुमार	37वीं/157	मुंगेर	राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रभारी भागलपुर अंचल	राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रशिक्षण प्रकोष्ठ वाणिज्यकर मुख्यालय पटना
6	श्री पंकज कुमार प्रसाद	37वीं/166	पटना	राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रभारी कटिहार अंचल	राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रशिक्षण प्रकोष्ठ वाणिज्यकर विभाग मुख्यालय पटना
7	श्री विरेन्द्र कुमार	37वीं/171	नालन्दा	राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रभारी कदम कुआँ अंचल	राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रशिक्षण प्रकोष्ठ वाणिज्यकर मुख्यालय पटना
8	श्री विनोद कुमार झा	38वीं/179	सुपौल	राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रभारी पाटलीपुत्रा अंचल	राज्य कर संयुक्त आयुक्त आर्थिक अन्वेषण इकाई, वाणिज्य—कर विभाग, मुख्यालय पटना
9	श्री सत्येन्द्र कुमार सिन्हा	38वीं/180	वैशाली	राज्य कर संयुक्त आयुक्त आर्थिक अन्वेषण इकाई, वाणिज्य—कर विभाग, मुख्यालय पटना	राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रभारी पाटलीपुत्रा अंचल
10	श्री पंकज कुमार	38वीं/182	भोजपुर	राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रभारी नवादा अंचल	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण), दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा
11	श्री दिवाकर प्रसाद	38वीं/191	प० चम्पारण	राज्य कर संयुक्त आयुक्त वाणिज्य—कर विभाग, मुख्यालय पटना	राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रभारी भागलपुर अंचल भागलपुर
12	श्री जफीर आलम	38वीं/198	सिवान	राज्य कर संयुक्त आयुक्त पटना पश्चिमी प्रमंडल, अन्वेषण ब्यूरो पटना	राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रभारी सीतामढ़ी अंचल

13	श्री युगल किशोर भारतीय	38वीं/200	जहानाबाद	राज्य कर संयुक्त आयुक्त अन्वेषण ब्यूरो, सारण प्रमंडल	राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रभारी गोपालगंज अंचल, गोपालगंज
14	श्री योगेन्द्र प्रसाद	विशेष/205	पटना	राज्य कर संयुक्त आयुक्त संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण), पटना पूर्वी प्रमंडल, पटना	राज्य कर संयुक्त आयुक्त सम्प्रतिनिदेशक (वित्त), राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु सेवा संपूर्ण
15	श्री राजीव रंजन	विशेष/209	अररिया	राज्य कर संयुक्त आयुक्त अन्वेषण ब्यूरो, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रभारी जमुई अंचल
16	श्री प्रभात कुमार	विशेष/213	पुर्णिया	राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रभारी गोपालगंज अंचल	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल अन्वेषण ब्यूरो, मुजफ्फरपुर
17	श्री मोहन कुमार	विशेष/216	मधुबनी	राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रभारी जमुई अंचल	राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रभारी मोतिहारी अंचल
18	डॉ० दिनकर प्रसाद	39वीं/223	मधेपुरा	राज्य कर संयुक्त आयुक्त आर्थिक अन्वेषण इकाई वाणिज्य कर विभाग मुख्यालय पटना	राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रभारी कदमकुआ अंचल, पटना
19	श्री प्रशांत कुमार झा	40वीं/229	बांका	राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रभारी उत्तरी अंचल, पटना	राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रभारी दक्षिणी अंचल, पटना
20	श्री अमर नाथ चौधरी	40वीं/230	भागलपुर	राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रभारी पूर्णिया अंचल	राज्य कर संयुक्त आयुक्त वाणिज्य कर विभाग प्रशिक्षण प्रकोष्ठ मुख्यालय पटना
21	श्री अजिताभ मिश्र	41वीं/237	मुंगेर	राज्य कर संयुक्त आयुक्त वाणिज्य-कर विभाग, मुख्यालय पटना	राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रभारी पटना विशेष अंचल
22	मो० जाकिर अली अंसारी	41वीं/241	शेखपुरा	राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रभारी पटना विशेष अंचल	राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रभारी उत्तरी अंचल, पटना
23	श्री नन्दकिशोर राज	41वीं/242	गोपालगंज	राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रभारी पटना दक्षिणी अंचल	राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रभारी पूर्णिया अंचल
24	श्री विनय कुमार	42वीं/244	पटना	राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, मुख्यालय, बिहार, पटना	राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रभारी नवादा अंचल

2. क्रम संख्या-3, 6 एवं 20 पर अंकित पदाधिकारी को उनके अभ्यावेदन के आधार पर स्थानांतरित किया गया है। अतएव स्थानांतरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

3. उपर्युक्त स्थानांतरित पदाधिकारी सात दिन के अंदर स्थानांतरित कार्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जनक राम, उप सचिव।

28 जून 2019

सं० 6/गो०-34-01/2019-1854—वाणिज्य-कर विभाग के राज्य-कर सहायक आयुक्त कोटि के निम्नलिखित पदाधिकारियों को स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-6 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है :-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	बैच संख्या	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	पदस्थापन का पद एवं स्थान का नाम
1	2	3	4	5	6
1	श्री कृष्णा मोहन सिंह	53वीं से 55वीं	वैशाली	राज्य कर सहायक आयुक्त भागलपुर प्रमंडल, अन्वेषण ब्यूरो, भागलपुर	राज्य कर सहायक आयुक्त, भागलपुर अंचल, भागलपुर
2	श्री मुनेश्वर प्रसाद	53वीं से 55वीं	मधुबनी	राज्य कर सहायक आयुक्त केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सम्प्रति समस्तीपुर अंचल में प्रतिनियुक्त	राज्य कर सहायक आयुक्त, समस्तीपुर, अंचल
3	श्री शशि भूषण	53वीं से 55वीं	अररिया	राज्य कर सहायक आयुक्त दरभंगा प्रमंडल, अन्वेषण ब्यूरो, दरभंगा, सम्प्रति मधुबनी अंचल में प्रतिनियुक्त	राज्य कर सहायक आयुक्त, मधुबनी अंचल
4	श्री दिनेश कुमार	53वीं से 55वीं	उत्तर प्रदेश	राज्य कर सहायक आयुक्त मगध प्रमंडल, अन्वेषण ब्यूरो, गया	राज्य कर सहायक आयुक्त, भभुआ अंचल
5	श्री रवीन्द्र कुमार,	53वीं से 55वीं	रोहतास	राज्य कर सहायक आयुक्त तिरहुत प्रमंडल, अन्वेषण ब्यूरो, मुजफ्फरपुर	राज्य कर सहायक आयुक्त, मुजफ्फरपुर पूर्वी अंचल
6	श्री अजीत रंजन	53वीं से 55वीं	पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त फारविसगंज अंचल सम्प्रति (प्रतिनियुक्ति) मगध प्रमंडल, अन्वेषण ब्यूरो, गया	राज्य कर सहायक आयुक्त, मगध प्रमंडल, अन्वेषण ब्यूरो, गया
7	हेमलता कुमारी	53वीं से 55वीं	पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल सम्प्रति हाजीपुर अंचल में प्रतिनियुक्त	राज्य कर सहायक आयुक्त, दानापुर अंचल
8	श्री गोपाल कुमार	53वीं से 55वीं	नवादा	राज्य कर सहायक आयुक्त मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल	राज्य कर सहायक आयुक्त, मुंगेर अंचल
9	श्री मुकेश कुमार	53वीं से 55वीं	भागलपुर	राज्य कर सहायक आयुक्त वाणिज्य-कर विभाग, मुख्यालय पटना, (प्रतिनियुक्ति) पाटलीपुत्रा अंचल	राज्य कर सहायक आयुक्त, पाटलीपुत्रा अंचल
10	श्री मनिष कुमार गुप्ता	53वीं से 55वीं	गया	राज्य कर सहायक आयुक्त भागलपुर प्रमंडल, अन्वेषण ब्यूरो, भागलपुर, सम्प्रति मुंगेर अंचल में प्रतिनियुक्त	राज्य कर सहायक आयुक्त, मुंगेर अंचल
11	श्री श्रीधर करुणानिधि	53वीं से 55वीं	पूर्णिछो	राज्य कर सहायक आयुक्त मगध प्रमंडल, अन्वेषण ब्यूरो, गया	राज्य कर सहायक आयुक्त, नवादा अंचल
12	श्री विजय कुमार पाठक	53वीं से 55वीं	मधुबनी	राज्य कर सहायक आयुक्त गया अंचल	राज्य कर सहायक आयुक्त, बिहार शरीफ अंचल

13	श्री सच्चिदानन्द विश्वास	53वीं से 55वीं	मधुबनी	राज्य कर सहायक आयुक्त पूर्णियाँ प्रमंडल, अन्वेषण ब्यूरो, पूर्णियाँ, सम्प्रति फारबिसगंज अंचल में प्रतिनियुक्त	राज्य कर सहायक आयुक्त, फारबिसगंज अंचल
14	श्री सतीश कुमार	53वीं से 55वीं	अरवल	राज्य कर सहायक आयुक्त सारण प्रमंडल, अन्वेषण ब्यूरो, छपरा	राज्य कर सहायक आयुक्त, सारण अंचल
15	श्री राजू रंजन	53वीं से 55वीं	सारण	राज्य कर सहायक आयुक्त पटना सिटी पश्चिमी, अंचल	राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना सिटी पूर्वी अंचल
16	श्री अजय प्रकाश	53वीं से 55वीं	सिवान	राज्य कर सहायक आयुक्त औरंगाबाद अंचल	राज्य कर सहायक आयुक्त सम्प्रति वित्त एवं लेखा पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में पदस्थापित (बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी में प्रतिनियुक्त)
17	रेणू कुमारी	53वीं से 55वीं	पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त बिहार शरीफ अंचल	राज्य कर सहायक आयुक्त गांधी मैदान अंचल
18	श्री राजन कुमार श्रीवास्तव	तृतीय सिमित	पूर्वी चम्पारण	राज्य कर सहायक आयुक्त शाहाबाद अंचल, सम्प्रति सासाराम में प्रतिनियुक्त	राज्य कर सहायक आयुक्त, सासाराम अंचल

2. क्रम संख्या—16 एवं 17 पर अंकित पदाधिकारी को उनके अभ्यावेदन के आधार पर स्थानांतरित किया गया है। अतएव स्थानांतरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

3. उपर्युक्त स्थानांतरित पदाधिकारी सात दिन के अंदर स्थानांतरित कार्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
जनक राम, उप सचिव।

3 जुलाई 2019

सं० 6/गो०—34—02/2019-1903—वाणिज्य—कर विभाग के राज्य—कर अपर आयुक्त कोटि के निम्नलिखित पदाधिकारियों को स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ—6 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है :—

क्र.सं.	पदाधिकारी का नाम	बैच संख्या	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	पदस्थापन का पद एवं स्थान का नाम
1	2	3	4	5	6
1	श्री विश्वनाथ महतो	36वीं/89	समस्तीपुर	राज्य कर अपर आयुक्त, आर्थिक अन्वेषण इकाई, वाणिज्य कर विभाग, मुख्यालय, पटना	राज्य कर अपर आयुक्त, पटना पूर्वी प्रमंडल, अपील
2	श्री ज्योतिन्द्र कुमार	36वीं/92	वैशाली	राज्य कर अपर आयुक्त (प्रशासन) तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	राज्य कर अपर आयुक्त वाणिज्य—कर विभाग, टी० आर० यू० मुख्यालय, पटना

3	श्री शशि रंजन कुमार	36वीं/100	सीतामढ़ी	राज्य कर अपर आयुक्त समेकित जांच चौकी डोभी सम्प्रति वाणिज्य-कर मुख्यालय, पटना में प्रतिनियुक्त	राज्य कर अपर आयुक्त वाणिज्य-कर विभाग मुख्यालय, पटना
4	श्री शैलेन्द्र कुमार	36वीं/103	वैशाली	राज्य कर अपर आयुक्त वाणिज्य-कर विभाग, टी0 आर0 यू0 मुख्यालय, पटना	राज्य कर अपर आयुक्त (प्रशासन) तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर
5	श्री प्रणव बोध रूंगटा	36वीं/106	भागलपुर	राज्य कर अपर आयुक्त पटना पूर्वी प्रमंडल, अपील	राज्य कर अपर आयुक्त (प्रशासन), पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ
6	श्री प्रमोद कुमार ग्वालिया	36वीं/120	मुंगेर	राज्य कर अपर आयुक्त (प्रशासन), पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ	राज्य कर अपर आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग, मुख्यालय, पटना में पदस्थापित करते हुए वाणिज्य कर न्यायाधिकरण में विभागीय सदस्य के पद पर प्रतिनियुक्ति।
7	श्री सजन कुमार रूंगटा	36वीं/120	पूर्णियाँ	राज्य कर अपर आयुक्त अंकेक्षण प्रमंडल भागलपुर	राज्य कर अपर आयुक्त (प्रशासन), मगध प्रमंडल, गया

2. क्रम संख्या-02 पर अंकित पदाधिकारी को उनके अभ्यावेदन के आधार पर स्थानांतरित किया गया है। अतएव स्थानांतरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

3. उपर्युक्त स्थानांतरित पदाधिकारी सात दिन के अंदर स्थानांतरित कार्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जनक राम, उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 16-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण
सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

सं० 728---मैं, जेबा शमशाद पत्नी-मो० अफरोज अहमद, निवास-राजा बाजार, समनपुरा,, चौधरी होटल लेन, पो०-बी० भी० कॉलेज, थाना-शास्त्रीनगर, जिला-पटना-800014, शपथ पत्र संख्या-3046, तारीख 02.05.2019 द्वारा यह घोषणा करती हूँ कि शादी के बाद अब मैं जेबा अफरोज के नाम से जानी जाऊंगी। जेबा शमशाद एवं जेबा अफरोज दोनों नाम मेरा ही है मैं इन दोनों नामों से जानी जाती हूँ।

जेबा शमशाद।

No. 729---I, PAMILA W/o Shri Kumar Amit Resident of B-104, Aparna Mansion Tilak Nagar, Rukanpura Vide Affidavit no. 38 dated 16.1.18 shall be known as Pamila Singh.

PAMILA.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 16-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार गजट

का

पूरक (अ०)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं० कारा/नि०को०(अधी०)—०१—१३/२०१५—५५१६

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय

गृह विभाग (कारा)

संकल्प

२८ जून २०१९

श्री विनोद कुमार सिंह, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, आरा (सम्प्रति निलंबित) संलग्न शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर के विरुद्ध उनके मंडल कारा, आरा में पदस्थापन अवधि में वित्तीय अनियमितता, आपूरक विशेष को लाभ पहुँचाने, सरकारी आदेश एवं विभागीय निर्देशों की अवहेलना करने के प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक १२७५ दिनांक २५.०२.२०१६ द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए निलंबनावस्था में शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर में संलग्न किया गया। साथ ही उक्त प्रतिवेदित आरोपों के लिए प्रपत्र 'क' में गठित आरोप के आलोक में उक्त विभागीय संकल्प द्वारा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी जिसके संचालन हेतु विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

२. विभागीय जांच आयुक्त-सह-संचालन पदाधिकारी, बिहार, पटना के पत्रांक ५१८ अनु० दिनांक १३.०६.२०१८ से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री सिंह के विरुद्ध प्रपत्र 'क' में गठित सभी दस (१०) आरोपों को प्रमाणित पाया गया। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-२००५ के नियम १८ (३) के प्रावधानों के तहत विभागीय ज्ञापांक ४८०६ दिनांक १२.०७.२०१८ द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए श्री सिंह से उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

३. श्री सिंह के द्वारा दिनांक ०४.१०.२०१८ को द्वितीय कारण पृच्छा का जबाब समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि निविदा में चयनित आपूरक को भुगतान तभी होता है जब कारा के आदेशानुसार आपूर्ति कर दे। आपूरक सुमेश कुमार, चीनी की आपूर्ति के लिये चयनित किये गये थे। निविदा सूचना के खण्ड ३, ४, ५, एवं ६ में लगाये गये शर्तों को चीनी के लिए चयनित आपूरक श्री सुमेश कुमार पूरा नहीं करते थे। इस कारण उनके चीनी का आपूर्ति लेना गलत होता। इस मामले में किसी एक को छूट देने पर दूसरे आपूरक भी ऐसी छूट चाहते जिससे कारा प्रशासन की शिकायत होती। ऐसी स्थिति में दूसरे आपूरक श्री अजय कुमार सिंह को चीनी की आपूर्ति आदेश दिया गया, उनसे चीनी की आपूर्ति ली गयी। वर्ष २०१५-१६ में चीनी आपूर्ति के लिये क्रय समिति द्वारा श्री सुमेश कुमार का नाम चयनित किया गया था, परन्तु निविदा सूचना के खण्ड २, ३, ४, ५ और ६ में दिये शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण उक्त कारा के दूसरे आपूरक श्री अजय कुमार सिंह से क्रय समिति द्वारा स्वीकृत दर पर ही चीनी की आपूर्ति ली गयी। वे निविदा सूचना के सभी शर्तों को पूरा करते हैं। कारा के पत्र संख्या ८३२ दिनांक २५.०३.२०१५ द्वारा उक्त आपूरक को निविदा सूचना की शर्तों को पूरा करने के लिये लिखा गया था। आपूरक श्री अजय कुमार सिंह द्वारा चीनी की आपूर्ति करने के तुरंत बाद आपूरक श्री सुमेश भी निविदा सूचना के सारे शर्तों को पूरा कर दिये। इसके बाद उन्हीं से चीनी की आपूर्ति ली गयी।

आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि निविदा दाता स्वयं क्रय-समिति के समक्ष उपस्थित रहते हैं और वे जान जाते हैं कि अमूक सामानों की आपूर्ति हेतु किस दर पर उनका नाम चयनित किया गया है। उसी दर पर उनकी आपूर्ति का भुगतान भी होता है। यह परिपाटी पहले से ही चली आ रही है। अन्य काराओं के निर्माणशाला में निर्मित वस्तुओं की आपूर्ति ली गयी है। विभागीय निर्देश में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपूर्तिकर्ता कारा से सामान नहीं मिलने पर बंदियों को उक्त सामान जैसे सरसों तेल, मसाला आदि नहीं देना है। कारा के पत्र संख्या-१५५३ दिनांक ०८.०६.२०१५ द्वारा शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर से अनुरोध किया गया कि वे विशेष दूत या ट्रांसपोर्ट से सरसों तेल और मसाला भेजें क्योंकि गृहक्षकों के हड़ताल के कारण सुरक्षा बल में कमी हो गयी थी। पत्र संख्या ४५२९ दिनांक १६.०८.२०१५ द्वारा सरसों तेल प्राप्त करने के लिये विशेष दूत से भेजने के लिये अनुरोध किया गया, तब मात्र ४९५ किलों सरसों तेल प्राप्त हुआ जबकि मांग ५२२

किलों की थी। उक्त केन्द्रीय कारा से सरसों तेल की आपूर्ति मिलने पर मंडल कारा, आरा में स्थानीय तौर पर क्रय नहीं किया गया है।

आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि सुधा डेयरी से दूध चूर्ण लेने के लिये एडवांस मनी जमा करना पड़ता है। कारा में सुधा डेयरी से दूध आपूर्ति हेतु एडवांस मनी निकालने का प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में सुधा डेयरी के ही दर पर दूसरे आपूरक से दूध की आपूर्ति ली गयी है। जहाँ तक राशन भण्डार में रक्षित खाद्य एवं अन्य सामग्रियों की कोई सूची/बोर्ड नहीं लगाने का आरोप है, इस बिन्दु पर न कोई नियम है और न विभागीय आदेश जिसका उल्लंघन किया गया है। बंदियों को खाने के लिये गेहूँ की आपूर्ति ली जाती थी और ठीकेदार के माध्यम से उसकी पिसाई की जाती थी। मिल से ठेला द्वारा आटा लाया जाता था। इमली और आमचूर्ण का स्टॉक उसी दिन खत्म हो गया था, अतः भण्डार में नहीं मिला।

4. आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी समीक्षा में पाया गया कि आपूरक श्री सुमेश कुमार द्वारा निविदा की शर्तों का पालन नहीं किये जाने के कारण दूसरे आपूरक से चीनी की आपूर्ति नहीं करने पर विधिवत् नोटिस तामिला कर निविदा रद्द करने की कार्यवाई नहीं की गई बल्कि बचाव साक्ष्य हेतु फर्जी तरीके से नोटिस को निर्मित कर संचिका पर रख दिया गया है। यह कार्य इनके दूसरे आपूरक से मिली-भगत को दर्शाता है। श्री सिंह द्वारा सामग्री आपूर्ति के लिए लिखित आदेश भी निर्गत नहीं किया जाता था। इस संबंध में उनका यह कहना कि कक्षपाल की कमी थी जिस कारण दूरभाष पर ही आपूरक को सूचना दी जाती थी, जो किसी भी दृष्टिकोण से मान्य नहीं है। साथ ही आरोपित यह भी कहते हैं कि कारा में दूरभाष पर आपूरक को सूचना दिये जाने की परिपाटी रही है। इस संबंध में स्पष्ट है कि परिपाटी को नियमों के उपर नहीं रखा जा सकता। कारा में निर्मित सामग्रियों की आपूर्ति नहीं लेकर आपूरक विशेष से सामग्री ली गयी है। ऐसा कर आरोपित पदाधिकारी ने विभागीय आदेशों की अवहेलना की है।

राशन भंडार में रक्षित खाद्य एवं अन्य सामग्रियों के अद्यतन स्थिति से संबंधित कोई तालिका/बोर्ड नहीं टाँगी गयी। लेखा जांच में यह भी पाया गया है कि राशन भंडार में गेहूँ नहीं था। कम्पनी से पैकेजिंग किया हुआ आटा 50 किलो के बोरा में था। इस प्रकार श्री सिंह के विरुद्ध लगाये गये आरोप सही पाये गए हैं। उनके द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है एवं विभागीय निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। अतः उनका द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब स्वीकार करने योग्य नहीं है।

5. वर्णित तथ्यों के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री सिंह के द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-14 के प्रावधानों के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित करते हुए निलंबन से मुक्त करने का विनिश्चय किया गया :-

“ तीन (03) वेतनवृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दंड ”।

6. उपर्युक्त विनिश्चित दंड के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 977 दिनांक 04.02.2019 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की माँग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 515 दिनांक 07.06.2019 द्वारा दण्ड प्रस्ताव पर सहमति संसूचित की गयी है।

7. प्रस्तावित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री विनोद कुमार सिंह, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, आरा (सम्प्रति निलंबित) संलग्न शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-14 के प्रावधानों के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित करते हुए निलंबन से मुक्त किया जाता है :-

“ तीन (03) वेतनवृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दंड ”।

8. इनके निलंबन अवधि के संबंध में अलग से निर्णय लिया जायेगा।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

दीवान जाफर हुसैन खॉं, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 16-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>